



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261857
CG-DL-E-22032025-261857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]
No. 211]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्
प्रत्याहार आदेश
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा.सं. 18-36/9318-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, वनांचल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, भाटिया कॉलोनी, आदित्यपुर, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम-831013 (झारखंड) झारखंड राज्य सरकार तथा झारखंड उपचर्या पंजीकरण परिषद् द्वारा एएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड राज्य सरकार, नेपाल हाउस, दोरंदा, रांची-834002, झारखंड को संबोधित नोटिस संख्या 18-36/9318-आईएनसी (57662) दिनांक 09.05.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 09.05.2022 को जारी नोटिस की एक प्रति वनांचल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, भाटिया कॉलोनी, आदित्यपुर, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम-831013 (झारखंड) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, वनांचल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। और संस्था यानी वनांचल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 26.12.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान एएनएम पाठ्यक्रम चलाने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से **वनांचल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, भाटिया कॉलोनी, आदित्यपुर, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम-831013 (झारखंड)** से एएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति झारखंड राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल **झारखंड राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1073/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 10th March, 2025

F. No. 18-36/9318-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Vananchal Nursing Training School** situated at **Bhatia Colony, Adityapur, Jamshedpur, Distt. East Singhbhum 831013, Jharkhand** is recognized by State Government of Jharkhand and Jharkhand Nurses & Registration Council to conduct **ANM** Course.

Whereas, a notice no. 18-36/9318-INC (57662) dated 09/05/2024 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Chief Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Jharkhand, Nepal House, Doranda, Ranchi – 834002, Jharkhand was issued. Copy of the notice dated 09/05/2024 was also enclosed to **Vananchal Nursing Training School** situated at **Bhatia Colony, Adityapur, Jamshedpur, Distt. East Singhbhum 831013, Jharkhand**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Vananchal Nursing Training School** Even the institution **Vananchal Nursing Training School** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 26/12/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute the institution is unable to run ANM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 26/10/2024 any person holding a recognized qualification of ANM from **Vananchal Nursing Training School** situated at **Bhatia Colony, Adityapur, Jamshedpur, Distt. East Singhbhum 831013, Jharkhand** shall be entitled to be registered only in the State of Jharkhand.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ety./1073/2024-25]